



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249939  
CG-DL-E-07112023-249939

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945

No. 749]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2023

फा. सं. एनएचएआइ/पकाई-जोध/2023/एजे/बीएम/प्रोहिबिसन.-व्हीकल्स यतः अमृतसर-जामनगर इकॉनोमिक कॉरिडोर के खण्ड संगरिया-सांतलपुर (एनई-754ए), के 206.867 किलोमीटर से 968.865 किलोमीटर (हरियाणा में ग्राम चौटाला के पास एनएच-54 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला राजमार्ग, जो राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूणकरनसर, बीकानेर, जोधपुर, थोब, पचपदरा, बालोतरा, सांचौर तथा गुजरात राज्य में थरद, वाव और गुजरात राज्य में सन्तालपुर के पास एनएच-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त) होने वाला पूर्ण नियंत्रित छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है।

और यतः नियंत्रित पहुंच वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से पहले उपरोक्त स्थानों को जोड़ने/विभिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिये जनता के पास वैकल्पिक मार्ग तथा सड़कें उपलब्ध रही हैं।

और यतः इस नियंत्रित पहुंच वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को हाई स्पीड कॉरिडोर (उच्च गति कॉरिडोर) के रूप में विकसित किया गया है और अधिसूचना संख्या का.आ. 1522(अ) दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अनुसार 04 लेन और अधिक के विभाजित वहन मार्ग हेतु विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिये अधिकतम गति सीमाएं 80 किमी. प्रति घंटा से 100 किमी प्रति घंटा के बीच अधिसूचित की गई हैं।

और यतः अपेक्षाकृत कम गति से चलने वाले वाहन जैसे दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे बिना मोटर वाले वाहन, कृषि योग्य ट्रैक्टर (ट्रेलर के साथ तथा ट्रेलर के बिना) आदि को अपनी भेद्यता तथा सम्बद्ध गति अंतर के कारण हाई स्पीड वाहनों (उच्च गति वाहन) से खतरा हो सकता है और यह सड़क सुरक्षा पहलुओं से समझौता करने जैसा होगा।

अतः अब, “राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002” की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित श्रेणी के वाहनों को अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के खण्ड संगरिया-सांतलपुर (एनई-754ए), का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जाता है:

- (i) मोटर साइकिल (स्कूटर तथा अन्य दुपहिया वाहनों सहित)
- (ii) तिपहिया (ई-कार्ट्स तथा ई-रिक्शा सहित)
- (iii) बिना मोटर वाले वाहन
- (iv) ट्रेलर के साथ तथा ट्रेलर के बिना ट्रेक्टर
- (v) बहु धुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन
- (vi) क्वाड्री साइकिल

संतोष यादव, अध्यक्ष एवं राजमार्ग प्रशासक  
[विज्ञापन-III/4/असा./531/2023-24]

## NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

**F. No. NHAI/PIU-Jod/2023/AJ/BM/Prohibition.**—Vehicles Whereas, the Sangaria-Santalpur section of Amritsar-Jamnagar Economic Corridor (754A) is being developed Six Lane fully access controlled highway kilometer 206.867 to kilometre 968.865 (the highway starting from its junction with NH-54 near Village Chautala in Haryana connecting Hanumangarh, Suratgarh, Lunkaransar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra, Sanchoe in the state of Rajasthan, Tharad, Vav and terminating at its junction with NH-27 near Santalpur in the state of Gujarat) ;

And whereas there have been and are alternative routes and roads available to the public for linking the above places/accessing various destination points before the development of this Access Controlled Highway;

And whereas this Access Controlled Highway has been developed as a high-speed corridor and the maximum speed limits for Motor Vehicles of various descriptions for the 4 lane and above divided carriageway have been notified varying between 80 km/hour to 100 km/hour vide Notification bearing No. S.O. 1522 (E) dated 6th April, 2018;

And whereas the movement of high speed vehicles may pose risk to the safety of certain classes of comparatively slow moving vehicles e.g. two wheelers, three wheelers and other slow moving vehicles like non-motorized vehicles, agricultural tractors (with or without trailers) due to their vulnerability and associated speed differentials and compromise the road safety aspects;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under Section 35 of "The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002", it is hereby ordered that the following classes of vehicles are prohibited from using this Sangaria-Santalpur section of Amritsar-Jamnagar Economic Corridor (754A);

- i. Motor Cycles (including scooters and other-wheelers);
- ii. Three wheelers (including e-Carts and e-Rickshaws);
- iii. Non- motorized vehicles;
- iv. Tractors Special with or without trailers
- v. Multi Axle Hydraulic Trailer Vehicles
- vi. Quadri-cycles;

SANTOSH YADAV, Chairman and Highway Administrator

[ADVT.-III/4/Exty./531/2023-24]